



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 25 जुलाई, 2022 / 3 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 22 जुलाई, 2022

संख्या: राजस्व-घ(ए) 1-3 / 2022-(सिरमौर).—हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 2.5 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील पांवटा साहिब,

जिला सिरमौर के अन्तर्गत वर्तमान कानूनगो वृत्त पांवटा साहिब व भगानी का विघटन/पुनर्गठन करते हुए 2 नये कानूनगो वृत्त राजपुर व भाटावाली इसमें निम्नलिखित पटवार वृत्तों को सम्मिलित करते हुए तुरन्त प्रभाव से खोलने/सृजित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

क्रम संख्या	नव सृजित कानूनगो वृत्त राजपुर में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम	क्रम संख्या	नव सृजित कानूनगो वृत्त भाटावाली में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम
1.	Banor	1.	Puruwala
2.	Shiva Rudana	2.	Pataliyon
3.	Toru Bhailla	3.	Bhatanwali
4.	Rajpur	4.	Toka Nagla
5.	Danda	5.	Bainkuan
		6.	Shamsherpur

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इन कानूनगो वृत्तों हेतु 2 पद कानूनगो वेतनमान मु0 29,700-94100/- (Level-8) मांग संख्या: 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं 2 पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) के सृजित/भरने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 19th July, 2022

No. EDN-C-A(1)7/ 2022-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of New Government Primary School in Manali Assembly Constituency, District Kullu as follows:—

GPS at Village Upper Gahar, Gram Panchayat Gahar, under Education Block Kullu-II in Manali Assembly Constituency, District Kullu.

This school may be made functional with immediate effect. Further, the opening of this school is subject to the condition that suitable accommodation, pure and safe drinking water and toilet is provided by the local public, if required.

Teacher/staff in the new School will be deployed through internalization.

By order,

MANEESH GARG,
Principal Secretary (Education).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 4th July, 2022.*

No. HHC/Admn.6(18)77-IX-Part.—In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Code of the Criminal Procedure 1973, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to extend the powers of Special Judicial Magistrate 1st Class upon Sh. Ajit Kumar Bhardwaj, joint Commissioner, Municipal Corporation, Shimla for a period of one year on and with effect from 17-12-2021 to try the offences detailed in Schedule-II of Section 383 and 352 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 with power to try the aforesaid offences summarily under section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 within the local limits of Municipal Corporation, Shimla.

By order,
Sd/-
Registrar General.

**OFFICE OF SECRETARY NAGAR PANCHAYAT KOTKHAI,
DISTRICT SHIMLA (H.P.)**

Dated 21st July, 2022

No. NPK-2022/411.—Whereas, the Nagar Panchayat Kotkhai Draft (Property Taxation) Bye-Laws-2022 were published by notice board dated **02-03-2022** vide Notification of even number **NPK-2022/193** for inviting Public Objections & Suggestions under Section **217** of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994:—

Whereas, the Objection & Suggestion received within the stipulated period have been considered and decided by the Nagar Panchayat Kotkhai.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Clause (A) of Section 217 and Section 217 read with clause (d) of Section 65 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13), the final Municipality (Property Taxation Bye-Laws-2022) are hereby notified and published in Rajpatra H.P. extraordinary for information of General Public as follows, namely:—

NAGAR PANCHAYAT KOTKHAI (PROPERTY TAXATION) BYE-LAWS 2022

1. Short title and.—(i) These Bye-Laws may be called the Nagar Panchayat Kotkhai (Property taxation) Bye-Laws-2022.

(ii) These bye-laws shall come into force from the date of publication of its notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these bye-laws unless the context otherwise require:-

- (i) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with its amendments carried out vide H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and vide H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.

- (ii) “Appellate Authority” means an authority prescribed under section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iii) “Assessment List” means the list of all units of the lands and buildings assessable to property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iv) “Assessment year” means the year commencing from the first day of April to 31st of March of succeeding year.
- (v) “Bye-Laws” means the Municipality (Property Taxation) bye-laws 2021 made under the Act as notified in the official gazette.
- (vi) “Municipality” means as defined in Section 2 (24) of the Act.
- (vii) “Section” means a Sections of the Act.
- (viii) “Retable Value” as defined in Section 2 clause(33-a)of the Act and procedure prescribed under these Bye-Laws.
- (ix) “Unit” means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and build up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural lands and land in notified green belt as notified under the interim development plan of Nagar Panchayat Kotkhai area.
- (x) “Unit area” means area of a unit in square meters.
- (xi) “Unit area tax” means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of rateable value of unit(s) of lands & buildings by the Nagar Panchayat Kotkhai from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Secretary shall keep a book to be called the “Assessment List” in which the following shall be entered in Form-A appended to these bye-laws:—

- (a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Nagar Panchayat kotkhai, distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof;
- (b) The rateable value of each unit of the lands and buildings;
- (c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or building;
- (d) If any such unit of a land or a building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and
- (e) Other details; if any, as the Secretary may from time to time think, fit.

Explanation.—(i) For the purpose of clause (b) the rateable value of the unit(s) of the land will be the rateable value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as “land” till the completion plan of building is sanctioned by Nagar Panchayat, Kotkhair or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as “land”.

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the form-A hereto. The Secretary may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the proforma of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as “the holder” of such unit of land or building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Secretary shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of Objections.—(1) The Secretary shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of Section 74 and sub-section (2) of Section 76 shall be entered. The register shall contain:—

- (i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;
- (ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;
- (iii) Name of the objector;
- (iv) The rateable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;
- (v) The date from which the rateable value finally fixed has to come into force; and
- (vi) Such other details as the Secretary may from time to time think, fit.

8. Amendment of Assessment list under the provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendments.—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3)

of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub Section 1 of 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf.

Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Nagar Panchayat kotkhai or at such other place(s) and time as may be specified by the Secretary as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favour of the Secretary, Nagar Panchayat Kotkhai, payable at Kotkhai or through RTGS in the Bank Account of Nagar Panchayat Kotkhai declared for the said purpose by the Secretary, as the case may be.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on form-B annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the Nagar Panchayat Kotkhai limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/ speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Secretary or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act:

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the rateable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection registers.—(i) A register of demand & collection of property tax in form-F appended to these bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Secretary, as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any the Secretary, as the case may be thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Secretary, as the case may be determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.—For the purpose of Section 81 and 84 of Himachal Pradesh Municipal, Act, 1994:—

- (i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;
- (ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended.

14. Remission/Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Executive Officer/Secretary, as the case may be every year.—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Secretary, as the case may be on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Secretary within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Municipality staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Secretary, as the case may be refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Secretary, as the case may be, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Secretary, as the case may be, from time to time.

17. Notice on transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under section 83 shall be either in Form-“C” or Form-“D” annexed to these bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid upto date.—No such notice as contained in Bye-Laws 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/ occupier(s).—The Secretary, as the case may be require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in Form-“E” appended to these bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non- submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under 19 of this Bye-Laws 19 of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Secretary, as the case may be in respect of such unit of the lands or building of which he is the owner or occupier.

21. Inspection of Tax Record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/ building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Secretary, as the case may be or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location Factor, Characteristic and its value.—For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location Factor, characteristic and its values shall be as under:—

(i) **Zoning of Kotkhair town proposed as following :-**

Zone A : (Main Bazar Chhol, ward No. 2, ward No. 3, ward No. 4, ward No. 5, ward No. 6, ward No. 7).

Zone B : Chhol Village

(ii) **Number of Zones.**—The entire municipal area is proposed to be divided into two zones *i.e.* zone –A, zone –B. Factors and proposed value of each factor. There are five factors which are relevant for determination of rateable value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factors per sq. meter shall be as under:—

(1) **Location-A main area: @4**

(2) **Location –B Outer area : @2**

23. Structural factor/ characteristics and its value.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, building shall be classified as pucca, semi-pucca and kucha in the following manner:—

(i) **For Pucca-building, value per sq. mtr. = 4**

(ii) **For semi-pucca building, value per sq. mtr. = 2**

(iii) For kucha building, value per sq. mtr. = 1

Location (Zone) No.	Value per sq. mtr.
A =	4
B =	2

24. Age factor and Age-wise grouping and value of the buildings.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group:—

Group	Building	Factor value
A	Before 1970	1
B	Above 1971 to 1980	2
C	Above 1981 to 2000	3
D	Above 2001 to 2020	4
E	2021 and beyond	5

25. Occupancy factor/characteristics and its value.—Occupancy factor and its value shall be as under for the purpose of Clause (c) *ibid*:—

(i) Value for residential occupancy:

(a) Value for self residential	(b) Value for Let out residential
2	4

(ii) Value per sq. mtr. for non-residential occupancy:

A	B	C	D	E
Hotels above built-up area of 2000 Sq. mtr., MNC Show Rooms and Restaurant	Hotel having built-up area between 1000 to 2000 Sq. mtr. And Show Room above 1000 Sq. Mtr.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show Rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching	Shops, School, Colleges, Educational Institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House	Gowdowns, Dhabas, Stall and Other types of Properties not covered under (A to D)
12	12	12	12	10

26. Use factor/ characteristic and its value.—For the purpose of Clause (33 a) of Section 2 of the Act, the value of use factor/characteristic of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of Clause (33 a) *ibid* shall be as under:—

(i) Residential = 2

(ii) Non- Residential = 4

27. Method of calculation of rateable value and rate of property tax on the net rateable value of the lands and buildings shall be as under:—

A-Zone	B-Zone
For residential properties@10%	For residential properties@10%
For non- residential properties@12%	For non- residential properties@12%
For land properties@12%	For land properties@12%

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same with in a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per Section 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-Laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Secretary, as the case may be request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

29. Repeal and Savings.—The scheme, regulation or Bye-Laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/-
Secretary,
Nagar Panchayat Kotkhai,
Distt. Shimla (H.P.).

Nagar Panchayat Kotkhai				
TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST				
FORM –A (See Bye Laws-4)				
UPN-No _____ I.D. No. _____ ZONE _____				
Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let-Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

DATE OF ASSESSMENT				
Sl. No.	Name of Property	Name of Owner	Name of Tenant or Occupier	Remarks

FORM-B
(See Bye-Laws 10)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year _____ **Bill No.** _____ **Dated** _____
Zone _____ **Bill(s) Detail**

UPN No. _____ ID No. _____ Name of Property _____ Name of Owner/Occupier _____ Correspondence Address _____
Due date 15 days from the date of Receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let-Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

Detail of demand for Property Tax for the year _____ **Period** _____

Sl. No.	Description of Tax	Amount
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate @ 10% (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period _____	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	
7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

Bill Prepared By

Bill Checked By

Assistant Tax Superintendent

Receipt

UPN No. _____	Bill No. _____ Bill Date _____
ID No. _____	Amount before due date _____
Name of Owner/Occupier _____	Amount after due date _____
	Amount Paid _____
	Receipt No. _____ Dated _____

Cashier, Nagar Panchayat Kotkhai

TERMS & CONDITIONS

1. The Nagar Panchayat Office is open from 10.00 A.M. to 05.00 P.M. on all working days
2. Cheques should be drawn in favour of Secretary, Nagar Panchayat Kotkhai.
3. Out stations cheques should include the discount charged in such cheque(s).
4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills sent under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date of posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.
6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Kotkhai Nagar Panchayat to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.
7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Nagar Panchayat Kotkhai
8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.
9. Bill generated be presented while tendering payment.

FORM-C
(See Bye Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument

To

Secretary,
Nagar Panchayat, Kotkhai

I _____ S/o _____ R/o _____ hereby
give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of
property:—

Description of Property

Name & address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date _____

Name of Owner/Occupier _____

Address _____

Mob.No. _____

FORM-D
(See Bye Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument

To

The Secretary,
Nagar Panchayat Kotkhai

Description of Property

Name& address of person whose title has been transferred	Name of legal heir/successor to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Mob.No.

FORM-E
(See Bye Law 19)

**(Tax liability Form under Section 82 read with Section 86 of the Himachal Pradesh
Municipal Act, 1994)**

The Secretary,
Nagar Panchayat Kotkhai

Subject: - Filling of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

I am submitting the details of property known as _____ I.D. No. _____
Ward No. _____ Zone _____ as under:—

Sl. No.	Unit	Area	Factors					Total rateable Value	Maintenance & Repair Rebate @10% under clause (33-a) of Section 2 of the H.P. Municipal Act, 1994.	Net rateable value	Remarks
---------	------	------	---------	--	--	--	--	----------------------	--	--------------------	---------

		F1	F2	F3	F4	F5	F1 to F5 (Multiply)			
1.	(a) Residential									
	(b) Let-out Residential									
2.	Non-Residential/ Commercial									
	(a) Hotel above built up area of 2000 sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants.									
	(b) Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq.m. and show room above 1000 sq. m.									
	(c) Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre.									
	(d) Shops, Schools, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House.									
	(e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (a to d)									
3.	Plot of Land									

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed therefrom.

Date

Yours faithfully,

(Signature)

Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters

Address

Mob. No.

Verification of the
Assistant Tax Superintendent

Verification of the
Secretary

Location factor/characteristic and its value:

- (i) Number of zones:- 2
- (ii) been divided *i.e.* A & B Zone.

Characteristics and its values (F2):-

- (i) For Pucca-building value per Sq. Mtr. = 3.00
- (ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr = 2.00
- (iii) For kutchha building, value per sq. mtr = 1.00

Age factor and Age-wise grouping and value of the Buildings (F3):-

Group		Factor Value
A	Before 1970	1
B	1971 to 1980	2
C	1981 to 2000	3
D	2001 to 2020	4
E	2021 and beyond	5

Occupancy factor/Characteristics and its value (F4):-

- (i) Value for residential occupancy:

(a) Value for self residential	(b) Value for Let-out residential
2	4

- (ii) Value per sq. mtr. for non- residential Occupancy:

A	B	C	D	E
Hotel above built up area of 2000 sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants	Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq.m. and show room above 1000 sq. m.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre	Shops, Schools, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House.	Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (A to D)
12	12	10	10	10

Use factor/Characteristics and its value (F5):-

The value of Use factor /characteristics of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of Clause (c) *ibid* shall be as under:-

- (i) Residential = 2
(ii) Non-Residential = 4

Method for calculation of Rateable Value and Rate of property tax on the Rateable Value of the unit of lands and Buildings:—

Area (in sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned in 23 to 27 of the bye laws. The figure that will so come out, thereof shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value at the rate of 12% in zone A and 10% in zone B for lands and in case of buildings as under:-

A-zone	B-zone
For self occupied residential properties measuring 1 sq.mtr. to 100 sq. mtrs. @ 10 % P.A. on the RV (Rateable Value).	For self occupied residential properties measuring 1 sq.mtr. to 100 sq. mtrs. @ 10% P.A. on the RV (Rateable Value).
(ii) For self occupied residential properties. measuring 101 sq. mtrs. to above @ 12 % P.A. on the RV (Rateable Value).	(ii) For self occupied residential properties. measuring 101 sq. mtrs. to above @ 10% P.A. on the RV (Rateable Value).
(iii) For non-residential properties @ 12% P.A. on the rateable value.	(iii) For non-residential properties @ 12% P.A. on the rateable value.

FORM-F
(See Bye-Laws 12)

Nagar Panchayat Kotkhai
Demand and Collection Register

For the Financial Year _____

UNP No. _____
ID No. _____
Name of Property: _____
Name of Owner/Occupier: _____
Correspondence Address: _____ _____

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let-Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

General Tax	Rebate	Total General Tax	Previous Arrear Amount	Interest	Net Amount Payable	Bill No.	Date of issuing Bill	Current General Tax Collection	Rebate & Remission	Arrear Collection	Interest Collection	Receipt No.	Receipt Date	Current Balance Amount	Arrear Balance Amount	Credit	Remarks

[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(1)-2/2016-L, dated, 22nd July, 2022 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. UD-A(1)-2/2016-L.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President in respect of Municipal Council, Sujanpur, Distt. Hamirpur as under:—

Name of Municipal Council	Name & Address of Elected President
Municipal Council, Sujanpur	Smt. Sunita Devi, Ward Councilor, Ward No. 6, Municipal Council, Sujanpur (President).

By order,
Sd/-

DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD).

**ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री प्रेम राज पुत्र सोनिया, गांव गुवाडी, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनुवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थी श्री प्रेम राज पुत्र सोनिया, गांव गुवाडी, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी माता नामक चन्दो की मृत्यु दिनांक 24-08-2006 को घर पर ही हुई है परन्तु अज्ञानतावश मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा मेरी माता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त चन्दो की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने हेतु किसी को आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

नेक चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव वाडा, परगना मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी नेक चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव वाडा, परगना मैहला, उप-तहसील धरवाला ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरे पिता का सही नाम ज्ञान चन्द है जो सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल दाडवीं व राम्मो में ज्ञानो गलत दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र हि0प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि ज्ञान चन्द के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 25-07-2022 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

न्यायालय सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

केवल कृष्ण पुत्र श्री वलदेव राज, निवासी रूलियाणी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

स्वर्गीय श्री देव राज पुत्र बीरवल पुत्र श्री हन्स राज, निवासी रूलियाणी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0) द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा विलेख संख्या 18/2010 दिनांक 26-04-2010 के अनुसार उनकी भूमि वाक्या मुहाल रूलियाणी व मुहाल करेलनू, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की वरास्त का इन्तकाल उनके पुत्रों सर्व श्री रमेश कुमार, केवल कृष्ण के नाम पर सत्यापित करवाने बारा।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है उक्त स्वर्गीय श्री देव राज की भूमि खाता खतोनी नं0 18/21, कित्ता 16, रकबा तादादी 08-10-00 बीघा वाक्या मुहाल रूलियाणी, तहसील डलहौजी का इन्तकाल नं0 226 वरास्त तथा भूमि खाता खतौनी नं0 44/49, कित्ता 11, रकबा तादादी 08-00-00 बीघा वाक्या मुहाल करेलनू, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा हि0प्र0 का इन्तकाल नं0 295 वरास्त मृतक द्वारा पंजीकृत वसीयत विलेख संख्या 18/2010 दिनांक 26-04-2010 के अनुसार उनके पुत्रों सर्व श्री रमेश कुमार, केवल कृष्ण के नाम पर दिनांक 30-07-2022 को सत्यापित किया जाना है। इस सन्दर्भ में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस विषय में दिनांक 30-07-2022 अथवा उससे पहले किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रख सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इन्तकाल सर्वश्री रमेश कुमार व केवल कृष्ण के नाम पर सत्यापित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

श्री जर्मो पुत्र बैंसी धर, निवासी गांव द्रबला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री जर्मो पुत्र बैंसी धर, निवासी गांव द्रबला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण—पत्र में जर्मो सही व दुरुस्त दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल द्रबला में प्रार्थी का नाम जर्म सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार जर्म सिंह की बजाये जर्म सिंह उर्फ जर्मो पुत्र बैंसी धर दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नरिंदर सिंह सुपुत्र श्री चतर सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री लीला थापा की जन्म तिथि 04-08-1983 है, जो कि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 06-08-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज

करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 4

तह०वाचक०चुराह/2022

श्री सोनम बोध पुत्र श्री डन्दुल, गांव भानोड़ी, परगना बैरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारा।

आवेदक श्री सोनम बोध पुत्र श्री डन्दुल, गांव भानोड़ी, परगना बैरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि०प्र०) का आवेदन—पत्र आवेदक व दो अन्य वाशिन्द्गान देह के ब्यान हल्फी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मैडिकल ऑफिसर ऑफ हैल्थ, चम्बा, जिला चम्बा द्वारा जारी अनापत्ति पत्र, प्रपत्र संख्या—10, अप्राप्यता प्रपत्र 1, नकल परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रति सहित जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Pt. JLN) मेडिकल कालेज व हस्पताल चम्बा, जिला चम्बा को सम्बोधित है उप—मण्डल दण्डाधिकारी चुराह के कार्यालय के माध्यम से इस न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-12-1992 है तथा उसका जन्म ग्राम पंचायत गुईला में हुआ है। परन्तु भारत वर्ष में कहीं भी उसका नाम व जन्म तिथि जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुईला, विकास खण्ड तीसा के जन्म रजिस्टर में पंजीकरण किया जाए।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत गुईला जन्म रजिस्टर में पंजीकरण करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरांत एक माह के भीतर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जायेगा व प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत गुईला, तहसील चुराह को पारित कर दिये जायेंगे।

ये इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 06-07-2022 को जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 12-08-2022

जमीला पत्नी रशीद, निवासी गांव/मुहल्ला लुहनु, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म तिथि दर्ज/पंजीकृत करने बारा।

प्रार्थिया जमीला पत्नी रशीद, निवासी गांव/मुहल्ला लुहनु, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक रुस्तम का जन्म दिनांक 01-01-2002 को हुआ है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया जमीला पत्नी रशीद निवासी गांव/मुहल्ला लुहनु, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के नामक रुस्तम की जन्म तिथि 01-01-2002 ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ है।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020

तारीख पेशी : 12-08-2022

रीना पत्नी मनोहर लाल, निवासी गांव/मुहल्ला भियोड़, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत उटीप चम्बा

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म तिथि दर्ज/पंजीकृत करने बारा।

प्रार्थिया रीना पत्नी मनोहर लाल, निवासी गांव/मुहल्ला भियोड़, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक रिधिमा का जन्म दिनांक 21-02-2021 को हुआ है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रीना पत्नी मनोहर लाल निवासी गांव/मुहल्ला भियोड़, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की की जन्म तिथि 21-02-2021 ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया रीना पत्नी मनोहर लाल, निवासी गांव/मुहल्ला भियोड़, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा की लड़की की जन्म तिथि 21-02-2021 ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ है।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 12-08-2022

राजवली पुत्र कासम, निवासी गांव/मुहल्ला बगेई, परगना कलन्द्रा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जाहंगी

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म तिथि दर्ज/पंजीकृत करने बारा।

राजवली पुत्र कासम, निवासी गांव/मुहल्ला बगेई, परगना कलन्द्रा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक जैनम वीवी का जन्म दिनांक 12-04-2004 को हुआ है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जाहंगी, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राजवली पुत्र कासम, निवासी गांव/मुहल्ला बगेई, परगना कलन्द्रा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक जैनम वीवी की जन्म तिथि 12-04-2004 ग्राम पंचायत जाहंगी, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जाहंगी, विकास

खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 12-08-2022

1. महिंदर कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव/मुहल्ला ररियारा, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चीहल वंगला

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा।

प्रार्थी महिंदर कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव/मुहल्ला ररियारा, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक स्नेहा का जन्म दिनांक 25-01-2008 व सुहानी शर्मा की जन्म दिनांक 02-02-2011 को हुआ है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चीहल बंगला, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी महिंदर कुमार पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव/मुहल्ला ररियारा, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक स्नेहा की जन्म तिथि 25-01-2008 व सुहानी शर्मा की जन्म दिनांक 02-02-2011 ग्राम पंचायत चीहल बंगला, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्रियों नामक स्नेहा का जन्म दिनांक 25-01-2008 व सुहानी शर्मा का जन्म दिनांक 02-02-2011 ग्राम पंचायत चीहल बंगला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 30-07-2022

लोकिंदर पुत्र चमन सिंह, निवासी गांव/मुहल्ला सकडू, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलुई

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म तिथि दर्ज/पंजीकृत करने बारा।

प्रार्थी लोकिंदर पुत्र चमन सिंह, निवासी गांव/मुहल्ला सकडू, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-11-1999 को हुआ है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पलुई, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 06-11-1999 ग्राम पंचायत पलुई, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 06-11-1999 ग्राम पंचायत पलुई, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 30-07-2022

दीवान चंद पुत्र होशियारा, निवासी गांव/मुहल्ला खंडेरी, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थी दीवान चंद पुत्र होशियारा, निवासी गांव/मुहल्ला खंडेरी, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक नमन का जन्म दिनांक 07-03-2010 को हुआ है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के लड़के नामक अमन की जन्म तिथि 07-03-2010 ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के नामक अमन की जन्म तिथि 07-03-2010 ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16 तह0 वाचक चुराह/2022

तारीख दायरा : 21-06-2022

श्रीमती ममता ठाकुर पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार, गांव सेंठा, परगना बैरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया श्रीमती ममता ठाकुर पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार, गांव सेंठा, परगना बैरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अपना आवेदन-पत्र ब्यान हल्फी, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबंदी सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वयक्त किया गया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख में राजेन्द्र कुमार है लेकिन मुहाल गढ़, पटवार वृत्त बैरागढ़ के राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र दर्ज है जो कि गलत है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पति का नाम दुरुस्ती करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया

के पति का नाम जोगिन्द्र के बजाये राजेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त बैरागढ़, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 21-06-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

कविता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनुई, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या : 3105/2022 दिनांक 04-07-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2022/12751, दिनांक 01-07-2022, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका कविता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनुई, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कविता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 01-07-2022 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कविता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 07-05-1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कविता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, प्राहनुई को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अनिता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनुई, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या : 3103/2022 दिनांक 04-07-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2022/12750, दिनांक 01-07-2022, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका अनिता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका अनिता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 01-07-2022 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अनिता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20-05-1993 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका अनिता कुमारी पुत्री श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, प्राहनुई को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

कमल कुमार पुत्र श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या : 3104/2022 दिनांक 04-07-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2022/12749, दिनांक 01-07-2022, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक श्री कमल कुमार पुत्र श्री पृथी सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 01-07-2022 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री कमल कुमार पुत्र श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 21-05-1986 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री कमल कुमार पुत्र श्री पृथी सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, प्राहनुई को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022

तारीख दायरा : 03-06-2022

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण, गांव सेला, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण, गांव सेला, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, पैशन पेमेंट आर्डर में कर्म चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल

सुकरैठा व निहुँई, पटवार वृत्त टिकरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम करमो पुत्र श्री लछमण दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम करमो की बजाए करमो उर्फ कर्म चन्द पुत्र श्री लछमण दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11-07-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022

तारीख दायरा : 03-06-2022

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चैन लाल, गांव भटका, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चैन लाल, गांव भटका, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र में मनोज कुमार पुत्र श्री चैन लाल दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृत्त पुखरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम विनोद कुमार पुत्र श्री चैन लाल दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम विनोद कुमार की बजाए विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार पुत्र श्री चैन लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त पुखरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति
(हि0प्र0)

कैलाश शर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव यंगरंग, डाकघर लोट, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति
(हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए विवाह पंजीकरण करने बारे।

कैलाश शर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव यंगरंग, डाकघर लोट, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति
(हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ पत्र सहित (बराए विवाह पंजीकरण) इस अदालत में प्रस्तुत किया है
जिसमें उन्होंने उल्लेख किया उनका विवाह दिनांक 17-10-2020 को निशा देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी
गांव गदौरी, डा0 मोहल, जिला कुल्लू के साथ धार्मिक रिति-रिवाज के अनुसार हुआ है। पर किसी कारणवश
ग्राम पंचायत में अपना विवाह पंजीकरण नहीं कर पाये। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत वारपा में अपना विवाह
पंजीकरण करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में क्षेत्रिय अभिकरण कि रिपोर्ट के माध्यम से हस्व छानबीन एवं
ब्यानात वाशिन्दगान देह के पाया गया कि कैलाश शर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव यंगरंग, डाकघर लोट, तहसील
लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति का विवाह निशा देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी गांव गदौरी, डा0 मोहल,
जिला कुल्लू दिनांक 17-10-2020 को हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी
को ग्राम पंचायत वारपा में श्री कैलाश शर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव यंगरंग, डाकघर लोट, तहसील लाहौल का
विवाह पंजीकरण करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 29-07-2022 तक
असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों व
क्षेत्रिय अभिकरण के रिपोर्ट आधार पर ग्राम पंचायत वारपा में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण करने के आदेश
पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति
(हि0प्र0)**

अजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

अजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित (बराए मृत्यु पंजीकरण) इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके पिता स्व0 श्री बलबीर सिंह का देहान्त दिनांक 17-03-1998 हुआ है। पर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत में अपने पिता का मृत्यु पंजीकरण नहीं कर पाये। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत गौशाल में अपने पिता का मृत्यु पंजीकरण करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में क्षेत्रिय अभिकरण कि रिपोर्ट के माध्यम व हस्व छानवीन एवं ब्यानात वाशिन्दगान देह के पाया गया कि अजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के पिता श्री लबीर सिंह का देहान्त दिनांक 17-03-1998 हो चुका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को ग्राम पंचायत गौशाल में अजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल में उनके पिता स्व0 श्री बलबीर सिंह की मृत्यु पंजीकरण करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 01-08-2022 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों व क्षेत्रिय अभिकरण की रिपोर्ट आधार पर ग्राम पंचायत गौशाल में प्रार्थी के पिता स्व0 श्री बलबीर सिंह का मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति
(हि0प्र0)**

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री छेरिंग राम, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री छेरिंग राम, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित (बराए मृत्यु पंजीकरण) इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके पिता स्व0 श्री छेरिंग राम का देहान्त दिनांक 14-04-1984 हुआ है। पर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत में अपने पिता का मृत्यु पंजीकरण नहीं कर पाये। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत गौशाल में अपने पिता का मृत्यु पंजीकरण करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में क्षेत्रिय अभिकरण की रिपोर्ट के माध्यम व हस्व छानवीन एवं ब्यानात वाशिन्दगान देह के पाया गया कि राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री छेरिंग राम, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के पिता श्री छेरिंग राम का देहान्त दिनांक 14-04-1984 हो चुका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को ग्राम पंचायत गौशाल में राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री छेरिंग राम, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल में उनके पिता स्व0 श्री छेरिंग राम की मृत्यु पंजीकरण करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 01-08-2022 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों व क्षेत्रिय अभिकरण की रिपोर्ट आधार पर ग्राम पंचायत गौशाल में प्रार्थी के पिता स्व0 श्री छेरिंग राम का मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)।